

SET-2

Unique Paper Code	:	62274301-OC
Name of the Paper	:	Principles of Macroeconomics-I
Scheme/Mode of Examinations	:	BA(P)- DSC
Semester	:	iii
Name of the Course	:	CBCS
Duration	:	3 Hours
Maximum Marks	:	75

Note: Answers may be written either in English or in Hindi, but the same medium should be used throughout the paper.

fvi . k% इस प्रश्नपत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

Instructions for Candidates :
अभ्यर्थियों के लिए निर्देश:

Attempt any four questions.
किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Q.1 (i) What are major microeconomic issues?

(ii) Using a circular flow diagram of the economy, show that the sum of private investment and government expenditure equals the sum of savings and taxes. (8.75+10)

(अ) समष्टिअर्थशास्त्र के प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

(ब) चक्रीय प्रवाह आरेख का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि निजी निवेश तथा सरकारी व्यय का योग बचत तथा कारों के योग के समान होता है।

Q.2 (i) What is meant by underground economy? What problems do an underground economy pose in the calculation of GDP?

(ii) Explain the income method to measuring gross domestic product (GDP) .What adjustments are required to calculate gross national product (GNP) from gross domestic product (GDP)? (9+9.75)

(अ) भूमिगत अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है?सकल घरेलू उत्पाद की गणना में एक भूमिगत अर्थव्यवस्था क्या समस्या उत्पन्न करती है?

(ब) सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के माप की आय विधि का वर्णन कीजिए। सकल घरेलू उत्पाद से सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना हेतु आवश्यक समायोजन क्या हैं?

Q.3 (i) What are the determinants of aggregate consumption function?

(ii) What happens if a household concerns about future and wants to save more today to be prepared for hard times tomorrow? (8.75+10)

(अ) समग्र उपभोग के निर्धारक क्या हैं?

(ब) क्या होता है, अगर घरेलू भविष्य के बारे में चिंतित है और कल के कठिन समय के लिए तैयार रहने के लिए आज और अधिक बचत करना चाहता है?

Q.4 (i) Suppose an economy is described by the following equations:-

$$C=14+0.6 Y_d$$

$$I= ₹ 20 \text{ Crores,}$$

$$G = ₹ 10 \text{ Crores,}$$

$$T = ₹ 5 \text{ Crores}$$

$$X = ₹ 15 \text{ Crores}$$

Where C is consumption, I is investment, G is government expenditure, T is tax, X is exports. M is imports. Answer the following:-

(i) Equilibrium level of income.

(ii) Calculate the net exports.

(iii) Value of open economy multiplier.

(ii) Explain income determination in three-sector economy using aggregate expenditures (AE) approach. (Diagram is required) (9+9.75)

(i) माना अर्थव्यवस्था निम्न समीकरण द्वारा वर्णित की गई है:

$$C=14+0.6 Y_d$$

$$I= ₹ 20 \text{ करोड़}$$

$$G = ₹ 10 \text{ करोड़}$$

$$T = ₹ 5 \text{ करोड़}$$

$$X = ₹ 15 \text{ करोड़}$$

(जहां C उपभोग है I निवेश है G सरकारी खर्च है T कार्य है M निर्यात है M आयात है)

निम्न का उत्तर दीजिए:

(अ) आय के संतुलन स्तर को ज्ञात कीजिए

(ब) विशुद्ध निर्यात की गणना करें

(स) खुली अर्थव्यवस्था गुणक का मूल्य

(ii) समग्र-व्यय (AE) दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय निर्धारण का वर्णन कीजिए।

Q.5 (i) Define the demand for money. What are the motives for holding money?

(ii) Write a short note on "Liquidity Trap."

(9.75+9)

(i) मुद्रा की मांग को परिभाषित कीजिए। मुद्रा रखने के उद्देश्य क्या हैं?

(ii) "तरलता जाल" पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

Q.6 (i) Why does an increase in money supply by Central Bank lead to a decrease in the interest rate?

(ii) Explain the process of credit creation by commercial banks in a multiple banking system.

(9+9.75)

(i) केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा पूर्ति में वृद्धि ब्याज दरों में कमी क्यों करता है?

(ii) बहु-बैंकिंग प्रणाली में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा साखटृ सृजन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।

